

दिव्यांक श्रीवास्तव का हुआ नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए चयन

मंडला, देशबन्धु। जिले के उद्योगमान बैडमिंटन खिलाड़ी दिव्यांक श्रीवास्तव का नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है।

दिव्यांक नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नर्मदापुरम में आयोजित हुए राज्य स्तरीय शायरी प्रतियोगिता में दिव्यांक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। जबलपुर संघाग का नेतृत्व करते हुए संघाग स्तरीय मुकाबले में दिव्यांक ने अपने शानदार खेल के जरिए उन्नज्ञन, रीवा, आदिम जाति कल्याण विभाग और ग्वालियर की टीम को हारकर सेमीफाइनल में प्रविष्ट किया।

हालांकि उनके फाइनल जीतने के सपने को उस वक्त बड़ा झटका। लगा जब उनकी श्रीवास्तव के बेटे



दिव्यांक बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 6 प्रतियोगिताओं में है दराबाद, हरियाणा, पंचकूला, लखनऊ, जयपुर में नेशनल खेल चुके हैं। दिव्यांक मंडला के ब्रेन चाइल्ड अैकेडमी के छात्र हैं।

उनकी इस उपलब्धि पर ब्रेन चाइल्ड अैकेडमी के सचालक व स्टाफ के साथ-साथ मंडला बैडमिंटन एसोसिएशन के प्राधानिकारी पदस्थत विद्याक इस हार से उभरते हुए तकाल रेड्रॉफस सोसायटी के माध्यम से आवेदक के इलाज हेतु 5 हजार रुपए का चैक देकर सहायता उपलब्ध कराया। चैक पाकर शैलेन्ड ने जिला प्रशासन की इस संवेदनशील सहायता के लिए धन्यवाद किया।

हालांकि उनके फाइनल



कलेक्टर ने शैलेन्ड को चेक देकर की सहायता

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के समक्ष शैलेन्ड विश्वकर्मा ने आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने आवेदन की पात्रता का परीक्षण कराते हुए तकाल रेड्रॉफस सोसायटी के माध्यम से आवेदक के इलाज हेतु 5 हजार रुपए का चैक देकर सहायता उपलब्ध कराया। चैक पाकर शैलेन्ड ने जिला प्रशासन की इस संवेदनशील सहायता के लिए धन्यवाद किया।

राजसात वाहन/सामाग्री की खुली नीलामी 13 नवंबर को होगी

मंडला, देशबन्धु। डिप्टी कलेक्टर मंडला ने बताया कि कलेक्टर न्यायालय जिला मण्डला द्वारा राजसात किये गये वाहन और सामाग्री की खुली नीलामी जहां है, जिस हालत में है, उसी हालत में किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय कलेक्टर परिसर, मण्डला में 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को दोपहर 2 बजे तक बोली लगाने हेतु उपस्थित हो सकते हैं। नीलामी की शर्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सेमीफाइनल में उन्हें भोपाल से द्वारा का सामान करना पड़ा। हालांकि इस हार से उभरते हुए तकाल रेड्रॉफस सोसायटी के माध्यम से शानदार खेल का खिलाफ शानदार जीत हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

हालांकि उनके फाइनल

जीतने के सपने को उस वक्त बड़ा झटका। लगा जब उनकी श्रीवास्तव के बेटे

सार-समाचार

पीएमश्री शासकीय हाईस्कूल सेमरखापा में अपराजिता कार्यक्रम आयोजित

मंडला, देशबन्धु। पीएम श्री शासकीय हाईस्कूल सेमरखापा मंडला में अपराजिता सेल्फ डिफेंस एवं क्राइम से सुरक्षा के तहत 'सक्षम बेटी सक्षम मंडला' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग मंडला कोतवाली थाना से पथरे श्री एसआई गुलाम रिसंह मारकों द्वारा क्राइम से सम्बन्धित जानकारी बालिकाओं को दी गई है। वेटी सक्षम बने सुरक्षित रहे अपराजिता का अंथं समझाया जो कभी पराजित नहीं है, बिना हृषिक्षण के कैम्पस मुकाबला कर सकते हैं, जब आपका दुश्मन आप पर हमला करें तो बच कर भागना है अपने आपको को बचाना है भाग कर जानकारी देना है जिससे एक से दो या दो से अधिक हो जाये तब उनका मुकाबला करना है।

सीखे गये कलाओं का उपयोग करना है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनर सूर्य प्रकाश धनगढ़ एवं मंजू कुमारी वरकड़े द्वारा सभी बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुरु सिखाया जिसके तहत यदि सामने वाले जितना भी पारफुल हो उनसे कैसे बचना है, गला पकड़े पर कैसे छुड़ाना है, शरीर के कम्पोजर भाग पर कैसे अटेक करना है, उसकी कला को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथ से दुश्मन माला की चोटी पकड़ता है, तो दोनों हाथ को पकड़कर सिर से बचने के दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, गला पकड़े पर कैसे छुड़ाना है, शरीर के कम्पोजर भाग पर कैसे अटेक करना है, उसकी कला को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, गला पकड़े पर कैसे छुड़ाना है, शरीर के कम्पोजर भाग पर कैसे अटेक करना है, उसकी कला को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया यदि कमर को कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो अंखें, कान पर कैसे अटेक करना है, बाल या चोटी द्वारा पकड़ लेने पर कैसे बचना है, हृषि को पकड़कर घैंसे बचना है, यदि दोनों हाथों को मोड़ना है, और छोटी अंगूली अंथं छिंगली को मोड़ना है, यदि पीछे से दोनों हाथ से दुश्मन पकड़ता है तो पीछे पैर से घुटने में मारना है या हल्का पीछे होकर छुककर दोनों पैर को पकड़ कर पैर ऊपर को बहुत ही सरल अंदेज पर सिखाया य